

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
		1	2	3		4	5	6
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	4.36	5.48	5.30	296218030	22580094	29656042	30959727
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	17.87	1.60	1.94	1.77	185733719	15107943	17500816	17946468
1.1.1 आउटराइट	10.56	0.97	1.28	1.05	16056018	1372786	1875057	1611829
1.1.2 रेपो	4.72	0.42	0.45	0.51	77286611	6414226	7645792	7894091
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.21	0.21	0.21	92391091	7320931	7979967	8440549
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.67	3.44	3.39	100639565	6953169	11363617	11968143
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.09	0.10	0.14	9844746	518982	791608	1045117
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	231.84	274.71	254.88	201387682	16037694	17013770	19012360
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	230.72	273.46	253.73	181153129	14570686	15219873	16983278
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.23	1.12	1.25	1.15	20234553	1467008	1793897	2029082
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	155567.02	203656.72	200519.84	79781976	6073917	7146649	6957478
2.1 ईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.30	0.31	0.30	190	16	17	16
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	2929.34	2786.17	2841.94	554034	43676	50985	48247
2.3 आईएमपीएस	56249.68	5167.51	4636.60	4481.05	7139110	577794	640867	606356
2.4 एनएसीएच जमा \$	16938.86	1311.11	1243.57	1325.97	1670223	113888	147380	134188
2.5 एनईएफटी	96198.05	7307.34	8215.47	7920.52	44361464	3331461	3793103	3764742
2.6 यूपीआई @	1858660.25	138851.42	186774.60	183950.06	26056955	2007081	2514297	2403931
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.41	1.79	1.18	185	15	33	21
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1697.73	1895.74	1891.36	2208583	171469	206368	210754
3.1 भीम आधार पे @	230.08	21.07	19.51	18.27	6907	581	641	615
3.2 एनएसीएच नामे \$	19762.28	1544.59	1723.65	1728.39	2199327	170756	205535	209956
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	132.07	152.58	144.70	2349	132	192	183
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	5003.43	5827.40	5672.82	2605110	200081	226810	218552
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	3579.49	4676.93	4587.10	2109197	158822	189832	183088
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	1895.40	2359.14	2338.70	795022	59417	69607	67468
4.1.2 अन्य \$	23169.66	1684.10	2317.79	2248.41	1314175	99405	120224	115620
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1423.94	1150.47	1085.72	495914	41259	36978	35463
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	1063.58	861.57	812.90	332556	27629	24735	23079
4.2.2 अन्य \$	4140.06	360.36	288.90	272.82	163358	13629	12243	12384
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	5236.08	7106.39	6868.39	216751	15897	20722	20740
5.1 वॉलेट	52898.40	4038.05	5474.25	5338.82	154066	11298	16668	17308
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1198.03	1632.13	1529.57	62686	4599	4053	3432
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	650.89	650.54	595.05	11512	946	981	888
5.2.2 अन्य \$	9115.54	547.14	981.59	934.51	51174	3653	3072	2544
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	484.42	481.93	447.43	7113350	553834	596239	550176
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	484.42	481.93	447.43	7113350	553834	596239	550176
6.2 अन्य	0.00	—	—	—	—	—	—	—
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	167988.69	218968.18	215399.84	91925771	7015198	8196787	7957700
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	168220.52	219242.89	215654.72	293313453	23052892	25210557	26970060
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	167736.10	218760.96	215207.29	286200103	22499058	24614318	26419884

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
		1	2	3	4	5	6	7
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1756976.91	132846.07	173238.90	170054.63	39206221	3029193	3641750	3385251
1.1 अंतर्बैंक \$	110801.96	8784.73	9743.77	8974.93	7207439	557266	638772	529331
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	124061.34	163495.14	161079.71	31998782	2471927	3002978	2855919
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	47478.09	3780.42	3668.66	3635.82	131858133	10487118	11661241	12824960
2.1 अंतर्बैंक @	13056.37	1029.33	851.54	839.90	69086996	5573973	6068349	6918867
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2751.09	2817.12	2795.92	62771136	4913144	5592892	5906093
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	60308.11	5076.57	4604.61	4382.08	3063077	255229	246201	229907
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	97.25	8.29	6.70	6.28	5084	426	370	345
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	59965.70	5045.81	4579.88	4358.58	3046987	253844	244945	228735
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	245.16	22.47	18.03	17.22	11005	959	886	827
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	3.58	0.28	0.15	0.14	37	3	2	1
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	3.33	0.27	0.13	0.11	35	3	1	1
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.25	0.02	0.03	0.02	3	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11640.55	973.79	1017.25	944.62	296622	24426	27668	25646
5.1 एईपीएस @	11640.55	973.79	1017.25	944.62	296622	24426	27668	25646

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025	2024	2025	
	तक	जून	मई	जून
	1	2	3	4
Payment System Infrastructures				
1 Number of Cards (1.1 to 1.2)	11006.97	10662.37	11115.67	11163.78
1.1 Credit Cards	1098.85	1038.13	1111.98	1111.97
1.2 Debit Cards	9908.12	9624.24	10003.70	10051.80
2 Number of PPIs @ (2.1 to 2.2)	13396.53	15051.30	13513.51	13520.65
2.1 Wallets @	8673.62	11375.61	8692.12	8681.92
2.2 Cards @	4722.91	3675.69	4821.38	4838.73
3 Number of ATMs (3.1 to 3.2)	2.56	2.56	2.57	2.51
3.1 Bank owned ATMs \$	2.20	2.21	2.21	2.15
3.2 White Label ATMs \$	0.36	0.35	0.36	0.36
4 Number of Micro ATMs @	14.82	15.25	14.78	14.59
5 Number of PoS Terminals	110.98	89.67	115.89	117.91
6 Bharat QR @	67.18	61.64	66.64	67.21
7 UPI QR *	6579.30	5770.15	6698.20	6782.51

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम हैं।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनालिसीस के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्यूलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल पररेल वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन, फास्ट टैग लेनदेन, डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्स, एक्सचेंज कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल हैं।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन छिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐस और यूपीआई ऐस के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और वहाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।